



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

भारतीय मानक ब्यूरो



BENGALURU BRANCH LABORATORY

बैंगलुरु शाखा प्रयोगशाला

Ref.: BNBL/ MECHANICAL/IS 303

Date: 11.10.2023

Below are the details of test facility created by Mechanical Section of BNBL and the same is for information of all ROs/ BOs/ Laboratories and Departments of BIS.

बीएनबीएल के मैकेनिकल अनुभाग द्वारा बनाई गई परीक्षण सुविधा का विवरण नीचे दिया गया है और यह बीआईएस के सभी आरओ/बीओ/प्रयोगशालाओं और विभागों की जानकारी के लिए है।

1.	I.S. No.	303:1989
2.	Product	Plywood for General Purposes- Specification
3.	Test(s) with clause No. for which facility has been created.	All Tests
4.	Type/ Size/ Grade/ Variety for which test facility has been created.	Grade – BWR, MR Type- AA, AB and BB
5.	Test Section	Mechanical
6.	Major equipment(s) procured for creation of test facility.	1. Hot Water Bath 2. Hot Air Oven 3. Weighting Balance 4. Humidity Chamber 5. Incubator 6. Straight Edge
7.	Status of facility created	Complete
8.	Test (s) with Clause No. for which facility yet to be created for complete testing.	N.A.
9.	Sample Size	2 Nos
10.	Testing capacity/ month	10 samples
11.	Remarks	Nil

In view of the above, all Regional/ Branch/ Laboratories are requested to send the samples to BNBL for testing as detailed above.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण के अनुसार परीक्षण के लिए नमूने बीएनबीएल को भेजें।

Pradeep Kumar
Laboratory Officer

OIC (Mech.)

H (BNBL)



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

भारतीय मानक ब्यूरो



BENGALURU BRANCH LABORATORY

बैंगलुरु शाखा प्रयोगशाला

Ref.: BNBL/MECHANICAL/ IS 1659

Date: 11.10.2023

Below are the details of test facility created by Mechanical Section of BNBL and the same is for information of all ROs/ BOs/ Laboratories and Departments of BIS.

बीएनबीएल के मैकेनिकल अनुभाग द्वारा बनाई गई परीक्षण सुविधा का विवरण नीचे दिया गया है और यह बीआईएस के सभी आरओ/बीओ/प्रयोगशालाओं और विभागों की जानकारी के लिए है।

1.	I.S. No.	1659:2004
2.	Product	Block Boards- Specification
3.	Test(s) with clause No. for which facility has been created.	All Tests
4.	Type/ Size/ Grade/ Variety for which test facility has been created.	Grade – BWP, MR Type- Decorative Type and Commercial Type Maximum Size- 2440 x 1220 mm, Thickness up to 25 mm
5.	Test Section	Mechanical
6.	Major equipment(s) procured for creation of test facility.	1. Hot Water Bath 2. Hot Air Oven 3. Weighting Balance 4. Humidity Chamber 5. Incubator 6. Straight Edge
7.	Status of facility created	Complete
8.	Test (s) with Clause No. for which facility yet to be created for complete testing.	N.A.
9.	Sample Size	2 Nos
10.	Testing capacity/ month	10 samples
11.	Remarks	Nil

In view of the above, all Regional/ Branch/ Laboratories are requested to send the samples to BNBL for testing as detailed above.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण के अनुसार परीक्षण के लिए नमूने बीएनबीएल को भेजें।

Pradeep Kumar
Laboratory Officer

OIC (Mech)

H (BNBL)



BUREAU OF INDIAN STANDARDS

भारतीय मानक ब्यूरो



BENGALURU BRANCH LABORATORY

बैंगलुरु शाखा प्रयोगशाला

Ref.: BNBL/ Mechanical/ IS 710

Date: 11.10.2023

Below are the details of test facility created by Mechanical Section of BNBL and the same is for information of all ROs/ BOs/ Laboratories and Departments of BIS.

बीएनबीएल के मैकेनिकल अनुभाग द्वारा बनाई गई परीक्षण सुविधा का विवरण नीचे दिया गया है और यह बीआईएस के सभी आरओ/बीओ/प्रयोगशालाओं और विभागों की जानकारी के लिए है।

1.	I.S. No.	710:2010
2.	Product	Marine Plywood - Specification
3.	Test(s) with clause No. for which facility has been created.	All Tests
4.	Type/ Size/ Grade/ Variety for which test facility has been created.	Maximum Size – 2400 x 1200 x 25 mm
5.	Test Section	Mechanical
6.	Major equipment(s) procured for creation of test facility.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hot Water Bath 2. Hot Air Oven 3. Weighting Balance 4. Humidity Chamber 5. Incubator 6. Straight Edge
7.	Status of facility created	Partial (Except Retention Preservative test)
8.	Test (s) with Clause No. for which facility yet to be created for complete testing.	N.A.
9.	Sample Size	2 Nos
10.	Testing capacity/ month	10 samples
11.	Remarks	Nil

In view of the above, all Regional/ Branch/ Laboratories are requested to send the samples to BNBL for testing as detailed above.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी क्षेत्रीय/शाखा/प्रयोगशालाओं से अनुरोध है कि वे उपरोक्त विवरण के अनुसार परीक्षण के लिए नमूने बीएनबीएल को भेजें।

Pradeep Kumar
Laboratory Officer

OIC (Mech.)

H (BNBL)